



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2007/माघ 25, 1928

No. 159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2007/MAGHA 25, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2007

का.आ. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1281(अ), तारीख 10 अगस्त, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 159.850 कि.मी. से 163.500 कि.मी. (कानपुर-वाराणसी सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 अक्टूबर, 2006 को "अमर उजाला" और तारीख 21 अक्टूबर, 2006 को "दैनिक जागरण" में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 159.850 कि०मी० से 163.500 कि०मी० तक (कानपुर - वाराणसी सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	मू-स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1		3	4	5	6	7	8	9
1	कौशाम्बी	चायल	(1) सकादाह कछार	16	निजी	कृषि	0.1700	इस्तियाक अहमद, इस्तेखार अहमद पुत्रगण रियाज अहमद मु० राधिया बीबी पत्नी रियाज अहमद, नसीमउद्दीन पुत्र अब्दुल अजीज
				17	निजी	कृषि	0.9900	अब्दुल सत्तार पुत्र अब्दुल अजीज, नौशाद अहमद, गुलजार अहमद पुत्रगण अब्दुल गफफार, मु० अख्तारी बेगम पत्नी अब्दुल गफफार
				18क	निजी	कृषि	0.1600	फलीमउद्दीन पुत्र ताजउद्दीन
				18ख	निजी	कृषि	0.3000	मासूक अहमद पुत्र मजूर अहमद, मु० कस्सो बीबी पत्नी मजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहमद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, संगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण केल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				18ग	सरकारी	कृषि	0.2400	बालू रेत
				18घ	निजी	कृषि	0.2900	श्याम लाल पुत्र राम हरख
				24	निजी	कृषि	0.1500	राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन व श्रीमती नथिया पत्नी जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिव मोहन व श्रीमती चौबी पत्नी शिव मोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन व श्रीमती गुलाबी पत्नी राम खेलावन, अब्दिका प्रसाद, अमरेश पुत्रगण राम सजीवन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, कयूमउद्दीन पुत्र मुहीउद्दीन, असीर उद्दीन पुत्र मुईन उद्दीन, निसार अहमद व इरफान अहमद व रिजवान अहमद पुत्रगण लल्लन, श्रीमती रईसा बेगम पत्नी लल्लन
				25	निजी	कृषि	0.3900	राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन व श्रीमती नथिया पत्नी जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिव मोहन व श्रीमती चौबी पत्नी शिव मोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन व श्रीमती गुलाबी पत्नी राम खेलावन, अब्दिका प्रसाद, अमरेश पुत्रगण राम सजीवन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, कयूमउद्दीन पुत्र मुहीउद्दीन, असीर उद्दीन पुत्र मुईन उद्दीन, निसार अहमद व इरफान अहमद व रिजवान अहमद पुत्रगण लल्लन, श्रीमती रईसा बेगम पत्नी लल्लन
				26	निजी	कृषि	0.0900	राम लखन पुत्र बैजनाथ
				27	निजी	कृषि	0.1500	मंगळ, डुक्क, व सुद्ध, पुत्रगण नूरअली
				28	निजी	कृषि	0.4500	संगीर अहमद व इसार अहमद पुत्रगण वहाजउद्दीन
				29	निजी	कृषि	0.1300	अब्दुल सत्तार, मु० अब्बास, जौयाद अली व नसीमउद्दीन पुत्रगण अब्दुल अजीज, नौशाद अहमद व गुलजार अहमद पुत्रगण अब्दुल गफफार, मु० अजीज, खैरात अली, अहमद अली व सुबराती पुत्रगण अब्दुल रउफ
				30	निजी	कृषि	0.4800	श्रीमती रईसा बीबी पत्नी लल्लन, श्रीमती इसमा बेगम पत्नी अब्दुल अहद
				31क	निजी	कृषि	0.4000	श्रीमती रईसा बीबी पत्नी लल्लन, श्रीमती इसमा बेगम पत्नी अब्दुल अहद
				45	निजी	कृषि	0.8400	मजीव उद्दीन पुत्र हाकिम अली, असगरी बीबी पत्नी मजीव उद्दीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				46क	निजी	कृषि	0.1000	दबीर अहमद पुत्र बजीर अहमद
				46ख	निजी	कृषि	0.3600	सगीर अहमद, इसार अहमद पुत्रगण वहाजउद्दीन
				47	निजी	कृषि	0.8900	राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जंगमोहन व श्रीमती नथिया पत्नी जंगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिव मोहन व श्रीमती चौबी पत्नी शिव मोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन व श्रीमती गुलाबी पत्नी राम खेलावन, अबिका प्रसाद, अमरेश पुत्रगण राम सजीवन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, कयूमउद्दीन पुत्र मुहीउद्दीन, असीर उद्दीन पुत्र मुईन उद्दीन, निसार अहमद व इरफान अहमद व रिजवान अहमद पुत्रगण लल्लन, श्रीमती रईसा बेगम पत्नी लल्लन
				48	निजी	कृषि	0.2200	सहदेव पुत्र कल्लू
				49	निजी	कृषि	0.2400	दबीर अहमद पुत्र बजीर अहमद
				50	निजी	कृषि	0.3500	खुरशीद अहमद, वकील अहमद, अफसार अहमद व मुखार अहमद पुत्रगण अहमद अली, जेहरा बीबी पत्नी अहमद अली, ताहिर अली पुत्र उमैद अली
				51	निजी	कृषि	0.1700	रुहलहक व मकसूदलहक पुत्रगण इनामुल हक
				52	निजी	कृषि	0.5600	बसीर अली पुत्र खैर उद्दीन, इस्तियाक अहमद, इस्तोखार अहमद पुत्रगण रियाज अहमद, मु0 राविया बीबी पत्नी रियाज अहमद, मु0 राविया बीबी पत्नी रियाज अहमद
				54	निजी	कृषि	0.1300	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				55	निजी	कृषि	0.1200	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				56	निजी	कृषि	0.1000	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				57	निजी	कृषि	0.2600	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				60	निजी	कृषि	1.0300	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद, नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद
				78क	निजी	कृषि	2.0000	बसीर अली पुत्र खैर उद्दीन, इस्तियाक अहमद, इस्तोखार अहमद पुत्रगण रियाज अहमद, मु0 राविया बीबी पत्नी रियाज अहमद, मु0 राविया बीबी पत्नी रियाज अहमद
				78ख	निजी	कृषि	0.7900	मासूक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, मु0 कस्सो बीबी पत्नी मंजूर अहमद, जहूर अहमद, तहूर अहमद पुत्रगण यार मोहम्मद, मकबूल अहमद, मनसूर अहमद, सगीर अहमद, लईक अहमद, कदीर अहमद पुत्रगण कल्लू उर्फ कमाल अहमद, रियाज अहमद, समीम अहमद, सफीक अहमद व नफीस अहमद पुत्रगण सिराज अहमद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(2) सिहोरी कछार	7क	निजी	कृषि	0.0500	दुबरी, राम औरतार, राम सरन, राम किशोर व राम खेलावन पुत्रगण हनुमान, पित्तू पुत्र देवी, राम दुलारे पुत्र चिन्ना, राम बहादुर, राम सजीवन, राम नरेश व राकेश पुत्रगण चन्दा, राम कृपाल पुत्र जगजीव, राजेश ना. 12वर्ष व राजेन्द्र ना. 8वर्ष पुत्रगण इन्द्रपाल सो शकुन्तला देवी माता
				7ख	निजी	कृषि	0.6100	मो0 अयूब पुत्र सहरउददीन
				7ग	निजी	कृषि	0.2200	मो0 इसराइल पुत्र जोषू, सईदउददीन पुत्र फरीदउददीन
				8	निजी	कृषि	0.1300	मो0 इसराइल पुत्र जोषू, सईदउददीन पुत्र फरीदउददीन
				9क	निजी	कृषि	0.2100	बशी पुत्र मतक
				9ख	निजी	कृषि	0.1000	मोहन पुत्र बैजनाथ
				17क	निजी	कृषि	0.2000	इश्वरलाल अहमद व शकील अहमद पुत्रगण मियाँ
				17ख	निजी	कृषि	0.2000	दुबरी, राम औरतार, राम सरन, राम किशोर व राम खेलावन पुत्रगण हनुमान, पित्तू पुत्र देवी, राम दुलारे पुत्र चिन्ना, राम बहादुर, राम सजीवन, राम नरेश व राकेश पुत्रगण चन्दा
				17ग	निजी	कृषि	0.0500	मोहन पुत्र बैजनाथ
				18	निजी	कृषि	0.4200	एकलाख अहमद व शकील अहमद पुत्रगण मियाँ, अज्जन पुत्र शब्बीर उददीन
				19	निजी	कृषि	0.2600	आले हसन पुत्र फैयाज हुसैन, मो0 अलताफ व मो0 मियाँ पुत्रगण बली मोहम्मद
				20	निजी	कृषि	0.2100	मो0 इलियास पुत्र वाजउददीन
				21	निजी	कृषि	0.4000	बचक व बच्चे पुत्रगण जुम्न
				22	निजी	कृषि	0.1100	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				23	निजी	कृषि	0.0700	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				24	निजी	कृषि	0.0800	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				25	निजी	कृषि	0.0300	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				26	निजी	कृषि	0.0800	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				27	निजी	कृषि	0.1500	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				28	निजी	कृषि	0.2000	कैयूम् उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन, मानिक चन्द पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				29	निजी	कृषि	0.1300	अब्दुल माकूल पुत्र कैयूम् उददीन, समीर उददीन पुत्र असीर उददीन, सईद उददीन पुत्र फरीद उददीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				30	निजी	कृषि	0.0900	कैयूँ उददीन व असीर उददीन पुत्राण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्राण जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्राण राम सजीवन
				31	निजी	कृषि	0.0900	कैयूँ उददीन व असीर उददीन पुत्राण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्राण जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्राण राम सजीवन
				32	निजी	कृषि	0.1000	कैयूँ उददीन व असीर उददीन पुत्राण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्राण जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्राण राम सजीवन
				33	निजी	कृषि	0.3500	बचक व बच्चे पुत्राण जुमन
				34क	निजी	कृषि	0.5300	बचक व बच्चे पुत्राण जुमन
				34ख	निजी	कृषि	0.1600	रुखसार अहमद, गुलसार अहमद, दिलशाद अहमद व नौशाद अहमद पुत्राण रईश अहमद
				35	निजी	कृषि	0.4600	बचक व बच्चे पुत्राण जुमन
				40	निजी	कृषि	0.5500	अब्दुल माकुल पुत्र कैयूँ उददीन, सगीर उददीन पुत्र असीर उददीन, सईद उददीन पुत्र फरीद उददीन
				41	निजी	कृषि	0.4200	अब्दुल माकुल पुत्र कैयूँ उददीन, सगीर उददीन पुत्र असीर उददीन, सईद उददीन पुत्र फरीद उददीन
				42क	निजी	कृषि	0.2800	सगीर उददीन पुत्र असीर उददीन, अब्दुल अहमद, अब्दुल माबूद, अब्दुल माकूल व अब्दुल याकूल पुत्राण कैयूँ उददीन
				42ख	निजी	कृषि	0.0800	बचक व अस्सन पुत्राण खलीलउददीन, रईस उददीन, मसीहउददीन, भुस्सन व नहें पुत्राण कल्लू
				49क	निजी	कृषि	0.1100	नसीर उददीन उर्फ नस्सन पुत्र जैन उददीन
				49ख	निजी	कृषि	0.2300	मकसूद अहमद, मुस्ताक अहमद, अब्दुल वाहिद व जाहिद अली पुत्राण महमूद अली
				49ग	निजी	कृषि	0.0600	अल्ताफ पुत्र बचई
				49घ	निजी	कृषि	0.1000	मो0 अयूब पुत्र सदरउददीन
				49ङ	निजी	कृषि	0.1500	महफूज अहमद पुत्र शाफीक अहमद, मो0 आफाक व मो0 अयूब पुत्राण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री वहीरुन्निशा पत्नी मो0 आफाक, मो0 फाकक व मकसूद अहमद पुत्राण अब्दुल कुदूस
				49च	निजी	कृषि	0.2000	एकलाख अहमद व शकील अहमद पुत्राण मिया, अज्जन पुत्र शम्बीर उददीन
				49छ	निजी	कृषि	0.1800	कैययाम उददीन व असीर उददीन पुत्राण मोईन उददीन
				49ज	निजी	कृषि	0.1500	अब्दुल माकुल पुत्र कैयूँ उददीन, सगीर उददीन पुत्र असीर उददीन, सईद उददीन पुत्र फरीद उददीन
				49झ	निजी	कृषि	0.1000	कैयूँ उददीन व असीर उददीन पुत्राण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्राण जगमोहन, मानिक चन्द्र पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बैजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्राण राम सजीवन
				49अ	निजी	कृषि	0.0800	आले हसन पुत्र फैय्याज हुसैन, मो0 अलताफ व मो0 मियाँ पुत्राण वली मोहम्मद
				49ट	सरकारी	कृषि	0.1200	रेत बाबू
				49ठ	निजी	कृषि	0.3400	मोहीउददीन पुत्र जुगई
				49ड	निजी	कृषि	0.1000	श्याम लाल पुत्र अन्नू

4979707-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50क	निजी	कृषि	0.3500	अब्दुल अहमद, माबूद अहमद व अब्दुल माकूल पुत्रगण कईमउद्दीन, सगीर उद्दीन पुत्र असीर उद्दीन
				50ख	निजी	कृषि	0.2900	मो० अयूब पुत्र सदरउद्दीन
				51	निजी	कृषि	0.1600	कैयूब उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन, कल्लन व जल्लन पुत्रगण खूब अली
				52	निजी	कृषि	0.0900	कैयूब उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन, कल्लन व जल्लन पुत्रगण खूब अली
				53	निजी	कृषि	0.6300	रफीक अहमद व अब्दुल हमीद पुत्रगण अनवर अली
				54	निजी	कृषि	0.2900	रईस उद्दीन, मसीउद्दीन, मुरयान व नन्हे पुत्रगण कल्लू
				55	निजी	कृषि	0.2900	नफीस उद्दीन पुत्र इकबाल उद्दीन, मो० एहसान, मो० अरसाद व मो० अकबर पुत्रगण मोहमद सियाँ व गुन्नूर फातमा पत्नी मो० सियाँ
				56	निजी	कृषि	0.1500	अमृत लाल पुत्र झरी, श्रीनाथ पुत्र पहाडी
				57	निजी	कृषि	0.1300	अमृत लाल पुत्र झरी, श्रीनाथ पुत्र पहाडी
				58	निजी	कृषि	0.2800	महीउद्दीन, शमीम अहमद, नसीम अहमद, मो० रहीद व मो० अरिफ पुत्रगण गहाजउद्दीन, राफिया बीबी पत्नी गहाजउद्दीन, कलीम उद्दीन, सैफ उद्दीन, मो० अहमद, याकूब व ऐन उद्दीन पुत्रगण ताजउद्दीन
				59	निजी	कृषि	0.0400	अल्ताफ पुत्र बचई
				60	निजी	कृषि	0.3700	महफूज अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री तहीरुन्निशा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस
				61	निजी	कृषि	0.3500	महफूज अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री तहीरुन्निशा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस
				62	निजी	कृषि	0.1800	जियाउल हक व ऐनुल हक पुत्रगण सिराजुल हक, अब्दुल हक पुत्र मंगरू
				63	निजी	कृषि	0.1700	जियाउल हक व ऐनुल हक पुत्रगण सिराजुल हक, अब्दुल हक पुत्र मंगरू
				64	निजी	कृषि	0.3700	महफूज अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री तहीरुन्निशा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस
				65	निजी	कृषि	0.3600	महफूज अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री तहीरुन्निशा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस
				66	निजी	कृषि	0.2900	जियाउल हक व ऐनुल हक पुत्रगण सिराजुल हक, अब्दुल हक पुत्र मंगरू
				70क	निजी	कृषि	0.0500	कैयाम उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन
				70ख	निजी	कृषि	0.1700	महफूज अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण बशीर अहमद, सरवरी बीबी पुत्री तहीरुन्निशा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस
				71	निजी	कृषि	0.4200	कैयाम उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन
				79	निजी	कृषि	0.2900	कैयाम उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन
				80क	निजी	कृषि	0.1400	चन्दी व मोहन पुत्रगण बेजनाथ, मु० समतिया पत्नी चन्दी
				80ख	निजी	कृषि	0.0600	कैयाम उद्दीन व असीर उद्दीन पुत्रगण मोईन उद्दीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80ग	निजी	कृषि	0.0600	कैयूम उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, राम प्रसाद व संगम लाल पुत्रगण जगमोहन व मानिक चन्द्र पुत्र शिवमोहन, शिव प्रसाद पुत्र राम खेलावन, राम लखन पुत्र बेजनाथ, अम्बिका प्रसाद व अमरीष पुत्रगण राम सजीवन
				151	निजी	कृषि	0.5900	नसीर उददीन उर्फ नस्सन पुत्र जैन उददीन
				152	निजी	कृषि	0.2200	नसीर उददीन उर्फ नस्सन पुत्र जैन उददीन
				153	निजी	कृषि	0.2700	कैयूम उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, कल्लन, लल्लन व जल्लन पुत्रगण खूब अली व श्रीनाथ पुत्र पहाड़ी
				154	निजी	कृषि	0.4000	कैयूम उददीन व असीर उददीन पुत्रगण मोईन उददीन, कल्लन, लल्लन व जल्लन पुत्रगण खूब अली व श्रीनाथ पुत्र पहाड़ी
				155	निजी	कृषि	0.4300	अब्दुल अहमद पुत्र कैयूम उददीन, सगीर अहमद पुत्र असीर उददीन
				156	निजी	कृषि	0.6400	सहदेव पुत्र कल्लू, अमृत लाल पुत्र झरी
						कृषि		
			(3) सखाबडीपुर	459	निजी	कृषि	0.9300	मकसुदुल हसन पुत्र मजुरुल हसन, मसुरुल हसन व महमुदुल हसन पुत्रगण जहूरुल हसन
				471	सरकारी	कृषि	0.2200	रेत बालू
				493	निजी	कृषि	1.7700	बच्छन व अस्सन पुत्रगण खलीलउददीन, रईस अहमद, असी उल्ला व मुस्सन पुत्रगण कल्लू, नन्हें नाबा 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्नु बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, सहेला बीबी पत्नी नसीरउददीन, मो 10 शाहिद व मो 10 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				841/493क	निजी	कृषि	0.1500	सईद अहमद पुत्र जुल्फकार अहमद
				841/493ख	निजी	कृषि	0.0600	मो 10 फारुक पुत्र सदरउददीन, मो 10 जाबेद पुत्र मो 10 अयूब, श्रीमती अकबरी बीबी पत्नी स्व 0 मो 10 अयूब, मो 10 इलियास व मो 10 जुबेर पुत्रगण सदरउददीन
				494	निजी	कृषि	0.5700	मो 10 आफाक व मो 10 अयूब पुत्रगण वसीर अहमद, बबू अहमद, मो 10 निया व मो 10 शाहिद पुत्रगण मो 10 आदिल, मो 10 नूरुलहा पत्नी मो 10 आदिल, मो 10 कैश, मो 10 वैस व मो 10 फरहाद, पुत्रगण मो 10 इदीश, मो 10 फर्जाना 10 उम्र 13 वर्ष सरसिका मु 0 साफिया खातून) पुत्र मो 10 इदीश, साफिया खातून पत्नी मो 10 इदीश, मो 10 नसीम, मो 10 असलम पुत्रगण मो 10 आशिक, अतीक, अहमद पुत्र मो 10 समीम, श्रीमती अजीजा बेगम पत्नी स्व 0 मो 10 आशिक, मो 10 अयूब पुत्र वसीर अहमद, सरवरी बीबी तहीरुननिशा पत्नी मो 10 आफाक, मो 10 फारुक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुदूस, मो 10 इदीस पुत्र मो 10 जलील, मो 10 इरफान नाबा, 11 वर्ष पुत्र सफीर सरसिका आलिया बीबी, मो 10 अहमद उर्फ बच्चे, माबुद अहमद व नईम उददीन उर्फ निक्के पुत्रगण अजीजउददीन, महफूज अहमद पुत्र सफीक अहमद, फजले रब पुत्र अब्दुल अजीज

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				499 क	निजी	कृषि	0.3100	मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण वसीर अहमद, बब्बू अहमद, मो०मिया व मो० शाहिद पुत्रगण मो० आदिल, मो० नूरजहाँ पत्नी मो० आदिल, मो० कैश, मो० वैस व मो० फरहार, पुत्रगण मो० इदीश, मो० फैज(नोबो) उम्र 13वर्ष सरसिका, मो० साफिया खातून पुत्र मो० इदीश, साफिया खातून पत्नी मो० इदीश, मो० नसीम, मो० असलम पुत्रगण मो० आशिक, अतीक अहमद पुत्र मो० नसीम, श्रीमती अजीजा बेगम पत्नी स्व० मो० आशिक, मो० अयूब पुत्र वसीर अहमद, सरवरी बीबी तहीरुनिसा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुददूस, मो० इदीस पुत्र मो० जलील, मो० इरफान नाबा, 11 वर्ष पुत्र सफीर सरसिका आलिया बीबी, मो० अहमद उर्फ बच्चे, माबुद अहमद व नईम उददीन उर्फ निके पुत्रगण अजीजउददीन, महफूज अहमद पुत्र सफीक अहमद, फजले रब पुत्र अब्दुल अजीज
				499 ख		कृषि	0.0700	मो० फारूक पुत्र सदरउददीन, मो० जावेद पुत्र मो० अयूब, श्रीमती अकबरी बीबी पत्नी स्व० मो० अयूब, मो० अयूब, मो० इलियास व मो० जुबैर पुत्रगण सरउददीन
				500	निजी	कृषि	0.4200	मो० आफाक व मो० अयूब पुत्रगण वसीर अहमद, बब्बू अहमद, मो०मिया व मो० शाहिद पुत्रगण मो० आदिल, मो० नूरजहाँ पत्नी मो० आदिल, मो० कैश, मो० वैस व मो० फरहार, पुत्रगण मो० इदीश, मो० फैज(नोबो) उम्र 13वर्ष सरसिका, मो० साफिया खातून पुत्र मो० इदीश, साफिया खातून पत्नी मो० इदीश, मो० नसीम, मो० असलम पुत्रगण मो० आशिक, अतीक अहमद पुत्र मो० नसीम, श्रीमती अजीजा बेगम पत्नी स्व० मो० आशिक, मो० अयूब पुत्र वसीर अहमद, सरवरी बीबी तहीरुनिसा पत्नी मो० आफाक, मो० फारूक व मकसूद अहमद पुत्रगण अब्दुल कुददूस, मो० इदीस पुत्र मो० जलील, मो० इरफान नाबा, 11 वर्ष पुत्र सफीर सरसिका आलिया बीबी, मो० अहमद उर्फ बच्चे, माबुद अहमद व नईम उददीन उर्फ निके पुत्रगण अजीजउददीन, महफूज अहमद पुत्र सफीक अहमद, फजले रब पुत्र अब्दुल अजीज
				501	निजी	कृषि	0.2000	चौबे व छितानी पुत्रगण गिरधारी
				501क	निजी	कृषि	0.0200	रघुबीर पुत्र बिरसू
				501ख	निजी	कृषि	0.2000	चौबे व छितानी पुत्रगण गिरधारी
				501ग	निजी	कृषि	0.2000	छितानी पुत्र गिरधारी
				501घ	निजी	कृषि	0.2000	छोटे लाल पुत्र राम विशाल, लवकुश पुत्र जवाहर, मु० जहरी पुत्नी राम विशाल
				501ङ	निजी	कृषि	0.2300	सईद अहमद, नईम अहमद, हकीमउददीन, रईस उददीन, अफसार अहमद, मो० असलम व निजामउददीन पुत्रगण मसैह उददीन
				501च	सरकारी	कृषि	0.0500	रेत बालू
				501छ	निजी	कृषि	0.1600	रहबद, ब्रज बहादुर, पप्पू, राममदन व गरीबदास पुत्रगण रामखेलावन
				501ज	सरकारी	कृषि	0.0500	बालू रेत
				501झ	निजी	कृषि	0.1900	रघुबीर पुत्र बिरसू
				501अ	निजी	कृषि	0.2900	रमजान अली व सदर अली पुत्रगण नवाब हसन, मो० अहमद, शेर अली, सुल्तान अली, इरफान अली नाबा, 16 वर्ष व निजवान अली नाबा, 12 वर्ष पुत्रगण लत्तन स, मु० असगरी बीबी माता
				502क	निजी	कृषि	0.0700	मिठाईलाल व मेवालाल पुत्रगण छेदी व गुडिया देवी पत्नी छेदी
				502ख	निजी	कृषि	0.2300	मोलायाम पुत्र जगरूप, मु० सभितया देवा जगरूप

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				502ग	निजी	कृषि	0.0500	बलदेव पुत्र रामदीन, हरदेव सिंह पुत्र राम सरन, अभिमन्यू सिंह पुत्र जगत सिंह, कुंवर बहादुर व विजय पुत्रगण हरी, श्रीमती इन्दी देवी पत्नी हरी, जगदीप, जगजीत, जगरूप व भुल्लन पुत्रगण रघुनाथ, बुद्धन, ननकू व सीताराम पुत्रगण धरसू, लल्लू पुत्र महादेव
				502घ	निजी	कृषि	0.1000	श्यामलाल पुत्र बाबू
				504क	निजी	कृषि	0.1900	बलदेव पुत्र रामदीन, हरदेव सिंह पुत्र राम सरन, अभिमन्यू सिंह पुत्र जगत सिंह, कुंवर बहादुर व विजय पुत्रगण हरी, श्रीमती इन्दी देवी पत्नी हरी, जगदीप, जगजीत, जगरूप व भुल्लन पुत्रगण रघुनाथ, बुद्धन, ननकू व सीताराम पुत्रगण धरसू, लल्लू पुत्र महादेव
				504ख	निजी	कृषि	0.0700	मौ0 फारुक पुत्र सदरउददीन मौ0 जाबेद पुत्र मौ0 अयूब, श्रीमती अकबरी बीबी पत्नी रसो मौ0 अयूब, मौ0 इलियास व मौ0 जुबैर पुत्रगण सदरउददीन
				505	निजी	कृषि	0.2200	बलदेव पुत्र रामदीन, हरदेव सिंह पुत्र राम सरन, अभिमन्यू सिंह पुत्र जगत सिंह, कुंवर बहादुर व विजय पुत्रगण हरी, श्रीमती इन्दी देवी पत्नी हरी, जगदीप, जगजीत, जगरूप व भुल्लन पुत्रगण रघुनाथ, बुद्धन, ननकू व सीताराम पुत्रगण धरसू, लल्लू पुत्र महादेव
				506	निजी	कृषि	0.3200	बलदेव पुत्र रामदीन, हरदेव सिंह पुत्र राम सरन, अभिमन्यू सिंह पुत्र जगत सिंह, कुंवर बहादुर व विजय पुत्रगण हरी, श्रीमती इन्दी देवी पत्नी हरी
				507	निजी	कृषि	0.1900	बलदेव पुत्र रामदीन, हरदेव सिंह पुत्र राम सरन, अभिमन्यू सिंह पुत्र जगत सिंह, कुंवर बहादुर व विजय पुत्रगण हरी, श्रीमती इन्दी देवी पत्नी हरी
				517	निजी	कृषि	0.5100	सुलेमान व अब्दुल रहमान पुत्रगण साहब अली
				518	निजी	कृषि	0.4800	सुलेमान व अब्दुल रहमान पुत्रगण साहब अली
				519	निजी	कृषि	0.3500	हकीमउददीन पुत्र मसीउददीन व आशिक बेगम पत्नी हबीब उददीन
				520	निजी	कृषि	0.7300	बच्छन व अस्सन पुत्रगण खलीलउददीन, रईस अहमद, असी उल्ला व भुस्सन पुत्रगण कल्लू, नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, सहेला बीबी पत्नी नसीरउददीन, मौ0 शाहिद व मौ0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				521	निजी	कृषि	1.0100	बच्छन व अस्सन पुत्रगण खलीलउददीन, रईस अहमद, असी उल्ला व भुस्सन पुत्रगण कल्लू, नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, सहेला बीबी पत्नी नसीरउददीन, मौ0 शाहिद व मौ0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				524	निजी	कृषि	0.3500	मुशीद अली पुत्र मुन्शी, मिन्हाजउददीन पुत्र अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान पुत्र साहब अली
				525	निजी	कृषि	0.2000	मुशीद अली पुत्र मुन्शी, मिन्हाजउददीन पुत्र अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान पुत्र साहब अली
				526	निजी	कृषि	0.1000	बच्छन व अस्सन पुत्रगण खलीलउददीन, रईस अहमद, असी उल्ला व भुस्सन पुत्रगण कल्लू, नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, सहेला बीबी पत्नी नसीरउददीन, मौ0 शाहिद व मौ0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				527	निजी	कृषि	0.1000	बच्छन व अस्सन पुत्रगण खलीलउददीन, रईस अहमद, असी उल्ला व भुस्सन पुत्रगण कल्लू, नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, सहेला बीबी पत्नी नसीरउददीन, मौ0 शाहिद व मौ0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				528	निजी	कृषि	0.4100	मुशीद अली पुत्र मुन्शी, मिन्हाजउददीन पुत्र अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान पुत्र साहब अली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				529	निजी	कृषि	0.3600	मुर्शीद अली पुत्र मुन्शी, मिर्जाजउद्दीन पुत्र अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान पुत्र साहब अली
				530	निजी	कृषि	0.2100	बछन व अस्सन पुत्रगण खलीलउद्दीन, रईस अहमद, असी उल्ला, मुस्सन पुत्रगण कल्लू नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, साहेला बीबी पत्नी नसीरउद्दीन, मो0 शाहिद व मो0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				531	निजी	कृषि	1.2600	बछन व अस्सन पुत्रगण खलीलउद्दीन, रईस अहमद, असी उल्ला, मुस्सन पुत्रगण कल्लू नन्हें नाबा0 15 वर्ष पुत्र कल्लूस अन्तू बीबी, साफिया बीबी पत्नी गुलाम मुस्तफा, साहेला बीबी पत्नी नसीरउद्दीन, मो0 शाहिद व मो0 आबिद पुत्रगण गुलाम मुस्तफा
				532	निजी	कृषि	0.5700	मु0 राफिया बीबी पत्नी जोजे गुलाम मुस्तफा, मु0 साहेला बीबी पत्नी जोजे नसीरउद्दीन
				532क	सरकारी	कृषि	1.0200	रेत बाळू
				532ख	निजी	कृषि	0.2000	हकीमउद्दीन पुत्र मसीउद्दीन व आशिफ बेगम पत्नी हबीबीउद्दीन
				533	सरकारी	कृषि	0.0800	रेत बाळू
				534	निजी	कृषि	0.1100	दुबरी, राम औतार, राम सरन, राम खेलावन व राम किशोर पुत्रगण हुमान
				535	निजी	कृषि	0.4500	मो0 अर्युब, मो0 फारुक, मो0 इलियास व मो0 जुबैर पुत्रगण सदरउद्दीन

[फा. सं. 11015/5/2001/डीजीएम/भू.अ./इला. बाईपास]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2007

S.O. 195(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1281(E), dated the 10th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 2 on the stretch of land from Km. 159.850 to Km. 163.500 (Kanpur – Varanasi Section) in District Kaushambi in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala”, dated the “20th October, 2006” and in “Dainik Jagran”, dated the 21st October, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 159.850 to Km. 163.500 (Kanpur - Varanasi Section) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kaushambi	Chayal	(1) Sakadah Kachhar	16	Private	Agriculture	0.1700	Ishtiyaq Ali, Ishtikhar Ali s/o Riyaz Ahamed, Musamat Rabiya Bibi w/o Riyaz Ahamed, Nasimuddin s/o Abdul Aziz
				17	Private	Agriculture	0.9900	Abdul Sattar s/o Abdul Aziz, Nausad Ahamed, Guljar Ahamed s/o Abdul Gaffar, Musmat Akhtari Begum, Abdul Gaffar
				18	Private	Agriculture	0.1600	Kalimuddin s/o Tazuddin
				18	Private	Agriculture	0.3000	Masooq Ahamed s/o Manzoor Ahamed, Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahamed, Zahoor Ahamed, Tahoor Ahamed s/o Yar Mohamad, Makbool Ahamed, Mansoor Ahamed, Sagir Ahamed, Laique Ahamed, Kadeer Ahamed s/o Kallu Alis Kamal Ahamed, Riyaz Ahamed, Samim Ahamed, Safiq Ahamed, Nafees Ahamed s/o Siraz Ahamed
				18	Government	Agriculture	0.2400	Rate Baloo
				18	Private	Agriculture	0.2900	Shyam Lal s/o Ram Harakh
				24	Private	Agriculture	0.1500	Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Smt. Nathiya w/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Smt. Chabi w/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Smt. Gulabi w/o Ram Khelawan, Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Ram Lakhan s/o Baij Nath, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinuddin, Nisar Ahamed, Irfan Ahamed, Rizwan Ahamed s/o Lallan, Smt. Raisa Begum w/o Lallan
				25	Private	Agriculture	0.3900	Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Smt. Nathiya w/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Smt. Chabi w/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Smt. Gulabi w/o Ram Khelawan, Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Ram Lakhan s/o Baij Nath, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinuddin, Nisar Ahamed, Irfan Ahamed, Rizwan Ahamed s/o Lallan, Smt. Raisa Begum w/o Lallan
				26	Private	Agriculture	0.0900	Ram Lakhan s/o Baij Nath
				27	Private	Agriculture	0.1500	Mangru, Budhu, Sudhu s/o Noor Ali
				28	Private	Agriculture	0.4500	Sagir Ahamed, Ishrar Ahamed s/o Wahazuddin

497 9707-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				29	Private	Agriculture	0.1300	Abdul Sattar, Mohd. Abbas, Zawad Ali, Nasimuddin s/o Abdul Aziz, Nausad Ahmad, Guljar Ahmad s/o Abdul Gaffar, Mohd. Aziz, Kharat Ali, Ahmad Ali, Subhrati s/o Abdul Rauf
				30	Private	Agriculture	0.4800	Smt. Raiysa Bibi w/o Lallan, Smt. Ishma Begum w/o Abdul Ahad
				31	Private	Agriculture	0.4000	Smt. Raiysa Bibi w/o Lallan, Smt. Ishma Begum w/o Abdul Ahad
				45	Private	Agriculture	0.8400	Muzibuddin s/o Haqim Ali, Asgar Bibi w/o Muzibuddin
				46	Private	Agriculture	0.1000	Dabir Ahmad s/o Wajir Ahmad
				46	Private	Agriculture	0.3600	Sagor Ahmad, Ishrar Ahmad s/o Wahazuddin
				47	Private	Agriculture	0.8900	Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Smt. Nathiya w/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Smt. Chabi w/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Smt. Gulabi w/o Ram Khelawan, Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Ram Lakhan s/o Baij Nath, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moiruddin, Nisar Ahmad, Irfan Ahmad, Rizwan Ahmad s/o Lallan, Smt. Raisa Begum w/o Lallan
				48	Private	Agriculture	0.2200	Sahdev s/o Kallu
				49	Private	Agriculture	0.2400	Dabir Ahmad s/o Wajir Ahmad
				50	Private	Agriculture	0.3500	Khursid Ahmad, Wakil Ahmad, Afsar Ahmad Mukhtar Ahmad s/o Ahmad Ali, Zuhara Bibi w/o Ahmad Ali, Tahir Ali s/o Umaid Ali
				51	Private	Agriculture	0.1700	Ruhaluk Haq, Makshudul Haq, S/o Enamul Haq
				52	Private	Agriculture	0.5600	Washir Ali s/o Khair Ali, Ishfaq Ali, Ishkhar Ali s/o Riyaz Ahmad, Musamat Rabiya Bibi w/o Riyaz Ahmad
				54	Private	Agriculture	0.1300	Masooq Ahmad s/o Manzoor Ahmad, Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahmad, Zahoor Ahmad, Tahoor Ahmad s/o Yar Mohamad, Makbool Ahmad, Mansoor Ahmad, Sagor Ahmad, Laique Ahmad, Kadeer Ahmad s/o Kallu Alis Kamal Ahmad, Riyaz Ahmad, Samim Ahmad, Safiq Ahmad, Nafees Ahmad s/o Siraz Ahmad
				55	Private	Agriculture	0.1200	Masooq Ahmad s/o Manzoor Ahmad, Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahmad, Zahoor Ahmad, Tahoor Ahmad s/o Yar Mohamad, Makbool Ahmad, Mansoor Ahmad, Sagor Ahmad, Laique Ahmad, Kadeer Ahmad s/o Kallu Alis Kamal Ahmad, Riyaz Ahmad, Samim Ahmad, Safiq Ahmad, Nafees Ahmad s/o Siraz Ahmad
				56	Private	Agriculture	0.1000	Masooq Ahmad s/o Manzoor Ahmad, Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahmad, Zahoor Ahmad, Tahoor Ahmad s/o Yar Mohamad, Makbool Ahmad, Mansoor Ahmad, Sagor Ahmad, Laique Ahmad, Kadeer Ahmad s/o Kallu Alis Kamal Ahmad, Riyaz Ahmad, Samim Ahmad, Safiq Ahmad, Nafees Ahmad s/o Siraz Ahmad

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				57	Private	Agriculture	0.2600	Masooq Ahamed s/o Manzoor Ahamed , Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahamed, Zahoor Ahamed, Tahoor Ahamed s/o Yar Mohmad, Makbool Ahamed, Mansoor Ahamed , Sagir Ahamed, Laique Ahamed, Kadeer Ahamed s/o Kallu Alis Kamal Ahamed, Riyaz Ahamed , Samim Ahamed , Safiq Ahamed, Nafees Ahamed s/o Siraz Ahamed
				60	Private	Agriculture	1.0300	Masooq Ahamed s/o Manzoor Ahamed , Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahamed, Zahoor Ahamed, Tahoor Ahamed s/o Yar Mohmad, Makbool Ahamed, Mansoor Ahamed , Sagir Ahamed, Laique Ahamed, Kadeer Ahamed s/o Kallu Alis Kamal Ahamed, Riyaz Ahamed , Samim Ahamed , Safiq Ahamed, Nafees Ahamed s/o Siraz Ahamed
				78क	Private	Agriculture	2.0000	Washir Ali S/o Khair Ali, Ishtiyaz Ali, Ishtikhar Ali s/o Riyaz Ahamed, Musamat Rabiya Bibi w/o Riyaz Ahamed
				78ख	Private	Agriculture	0.7900	Masooq Ahamed s/o Manzoor Ahamed , Musmat Kasso Bibi w/o Manzoor Ahamed, Zahoor Ahamed, Tahoor Ahamed s/o Yar Mohmad, Makbool Ahamed, Mansoor Ahamed , Sagir Ahamed, Laique Ahamed, Kadeer Ahamed s/o Kallu Alis Kamal Ahamed, Riyaz Ahamed , Samim Ahamed , Safiq Ahamed, Nafees Ahamed s/o Siraz Ahamed
			(2) Sihori Kachhar	7क	Private	Agriculture	0.0500	Dubri, Ram Awtar, Ram Saran , Ram Kisor, Ram Khelawan S/o Hanuman, Pitu S/o Devi, Ram Dulari S/o Chinna, Ram Bhadur, Ram Sjeewan, Ram Naresh, Rakesh S/o Chanda, Ram Kripal S/o Jagjeet, Rajeesh[12Year] Rajendra[8 Year]S/O Indra Pal Gar. Shakuntla Devi
				7ख	Private	Agriculture	0.6100	Mohd. Ayub S/O Saderuddin
				7ग	Private	Agriculture	0.2200	Mohd. Isarael S/o Jokhu, Saeeduddin S/o Friduddin
				8	Private	Agriculture	0.1300	Mohd. Isarael S/o Jokhu, Saeeduddin S/o Friduddin
				9क	Private	Agriculture	0.2100	Banshi S/o Malau
				9ख	Private	Agriculture	0.1000	Mohan S/o Baj Nath
				17क	Private	Agriculture	0.2000	Ikhlak Ahamed, Shkeel Ahamed S/o Miya
				17ख	Private	Agriculture	0.2000	Dubri, Ram Awtar, Ram Saran , Ram Kisor, Ram Khelawan S/o Hanuman, Ram Dulari S/o Chinna, Ram Bhadur, Ram Sjeewan, Ram Naresh, Rakesh S/o Chandai
				17ग	Private	Agriculture	0.0500	Mohan S/o Baj Nath
				18	Private	Agriculture	0.4200	Ikhlak Ahamed, Shkeel Ahamed S/o Miya, Ajjan S/o Shabberuddin
				19	Private	Agriculture	0.2600	Aali Hasan S/o Fayyaz Husean, Altaf, Mohd. Miya S/o Wali Mohamad
				20	Private	Agriculture	0.2100	Mohd. Ilyash S/o Wajuddin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				21	Private	Agriculture	0.4000	Bachu, Bacche S/o Jumman
				22	Private	Agriculture	0.1100	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				23	Private	Agriculture	0.0700	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				24	Private	Agriculture	0.0800	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				25	Private	Agriculture	0.0300	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				26	Private	Agriculture	0.0800	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				27	Private	Agriculture	0.1500	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				28	Private	Agriculture	0.2000	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				29	Private	Agriculture	0.1300	Abdul Makul S/o Kauamuddin, Sageeruddin S/o Asheruddin, Saaiduddin S/o Fariduddin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				30	Private	Agriculture	0.0900	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeevan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				31	Private	Agriculture	0.0900	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeevan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				32	Private	Agriculture	0.1000	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeevan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				33	Private	Agriculture	0.3500	Bachu, Bacche S/o Jumman
				34क	Private	Agriculture	0.5300	Bachu, Bacche S/o Jumman
				34ख	Private	Agriculture	0.1600	Rokhsar Ahamed, Gulsar Ahamed, Dilsad Ahamed, Nausad Ahmad s/o Raish Ahamed
				35	Private	Agriculture	0.4600	Bachu, Bacche S/o Jumman
				40	Private	Agriculture	0.5500	Abdul Makul S/o Kauamuddin, Sageeruddin S/o Asheruddin, Saeiduddin S/o Fariduddin
				41	Private	Agriculture	0.4200	Abdul Makul S/o Kauamuddin, Sageeruddin S/o Asheruddin, Saeiduddin S/o Fariduddin
				42क	Private	Agriculture	0.2800	Sageeruddin S/o Asheruddin, Abdul Ahmad, Abdul Mabud, Abdul Makul, Abdul Yakuul S/o Kauamuddin.
				42ख	Private	Agriculture	0.0800	Bacchan, Assan S/o Khaliuddin, Raeshuddin, Mashuddin, Bhussan, Nanne S/o Kallu
				49क	Private	Agriculture	0.1100	Naseruddin Alias Nassan S/o Jaenuddin
				49ख	Private	Agriculture	0.2300	Makshud Ahmad, Mustak Ahmad, Abdul Wahid, Zahid Ali S/o Mahmud Ali
				49ग	Private	Agriculture	0.0600	Altat S/o Bachi
				49घ	Private	Agriculture	0.1000	Mohd. Ayub S/o Sadaruddin
				49ङ	Private	Agriculture	0.1500	Mahfooz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibi D/o Thrunnisha W/o Mohad. Afaq, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish
				49च	Private	Agriculture	0.2000	Ikhiak Ahmad, Shkeel Ahmad S/o Miya, Ajjan S/o Shabberuddin
				49छ	Private	Agriculture	0.1800	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				49ज	Private	Agriculture	0.1500	Abdul Makul S/o Kauamuddin, Sageeruddin S/o Asheruddin, Saeiduddin S/o Fariduddin

49797-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				49अ	Private	Agriculture	0.1000	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhani s/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin.
				49अ	Private	Agriculture	0.0800	Aali Hasan S/o Fayyaz Husean, Altaf, Mohd. Miya S/o Wali Mohammad
				49ब	Government	Agriculture	0.1200	Rait Baloo
				49ब	Private	Agriculture	0.3400	Mohiuddin s/o Jumai
				49ब	Private	Agriculture	0.1000	Shyam Lal S/o Annu
				50अ	Private	Agriculture	0.3500	Abdul Makul S/o Kaumuddin, Sageeruddin S/o Asheruddin, Saeiduddin S/o Fariduddin
				50अ	Private	Agriculture	0.2900	Mohd. Ayub S/o Sadaruddin
				51	Private	Agriculture	0.1600	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Kallan, Lallan, Zallan S/o Khub Ali,
				52	Private	Agriculture	0.0900	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Kallan, Lallan, Zallan S/o Khub Ali,
				53	Private	Agriculture	0.6300	Rafeiq Ahmad, Abdul Hameid S/o Anwar Ali
				54	Private	Agriculture	0.2900	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Kallan, Lallan, Zallan S/o Khub Ali,
				55	Private	Agriculture	0.2900	Natish Uddin S/o Iqbal Uddin, Mohd. Anshan, Mohd. Arsal, Mohd. Akbar S/o Mohd. Miya, Gunnur Fatma W/o Mohd. Miya
				56	Private	Agriculture	0.1500	Amrit Lal S/o Jhari, Sri Nath S/o Phari
				57	Private	Agriculture	0.1300	Amrit Lal S/o Jhari, Sri Nath S/o Phari
				58	Private	Agriculture	0.2800	Mahiuiddin, Samim Ahmad, Nasim Ahmad, Mohd. Sahid, Mohd. Arif S/o Whazuddin, Safiya Bibi W/o Whazuddin, Kalim uddin, Saif uddin, Mohd. Ahmad, Yaqub, Aain uddin S/o Taj uddin
				59	Private	Agriculture	0.0400	Altaf S/o Bachi
				60	Private	Agriculture	0.3700	Mufuz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibe D/o Thrunnisha W/o Mohad. Afak, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish
				61	Private	Agriculture	0.3500	Mufuz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibe D/o Thrunnisha W/o Mohad. Afak, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish
				62	Private	Agriculture	0.1800	Ziyaut Haq, Anul Haq S/o Sirajul Haq, Abdul Haq S/o Magru
				63	Private	Agriculture	0.1700	Ziyaut Haq, Anul Haq S/o Sirajul Haq, Abdul Haq S/o Magru
				64	Private	Agriculture	0.3700	Mufuz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibe D/o Thrunnisha W/o Mohad. Afak, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				65	Private	Agriculture	0.3600	Mhuz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibe D/o Thrunnisha W/o Mohad Afaq, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish
				66	Private	Agriculture	0.2900	Ziyaut Haq, Anul Haq S/o Sirajul Haq, Abdul Haq S/o Magru
				70क	Private	Agriculture	0.0500	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				70ख	Private	Agriculture	0.1700	Mhuz Ahmad S/o Shafiq Ahmad, Mohd. Afak, Mohmd. Ayub S/o Wsher Ahmad Sarwari Bibe D/o Thrunnisha W/o Mohad Afaq, Mohmad Faruq, Mhmud Ahmad S/o Quidish
				71	Private	Agriculture	0.4200	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				79	Private	Agriculture	0.2900	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				80क	Private	Agriculture	0.1400	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				80ख	Private	Agriculture	0.0600	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin
				80ग	Private	Agriculture	0.0600	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Ram Prasad, Sangam Lal s/o Jagmohan, Manikchand s/o Shiv Mohan, Shiv Prasad s/o Ram Khelawan, Ram Lakhan S/o Baj Nath Ambika Prasad, Amresh, s/o Ram Sajeewan, Kaumuddin s/o Muhiuddin, Ashiruddin s/o Moinddin
				151	Private	Agriculture	0.5900	Naseruddin Alias Nassan S/o Jaenuddin
				152	Private	Agriculture	0.2200	Naseruddin Alias Nassan S/o Jaenuddin
				153	Private	Agriculture	0.2700	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Kallan, Lallan, Zallan S/o Khub Ali, Sri Nath S/o Phari
				154	Private	Agriculture	0.4000	Kaumuddin, Ashiruddin S/o Moinddin Kallan, Lallan, Zallan S/o Khub Ali, Sri Nath S/o Phari
				155	Private	Agriculture	0.4300	Abdul Ahmad S/o Kaumuddin, Sageir Ahmad S/o Ashiruddin
				156	Private	Agriculture	0.6400	Sahadev S/o Kallu, Amrit Lal S/o Jhri
				459	Private	Agriculture	0.9300	Maksoodul Hasan s/o Majrool Hasan, Masrool Hasan, Mahmudul Hasan s/o Jahrool Hasan
	(3) Sakhabripur			471	Government	Agriculture	0.2200	Rait Baloo
				493	Private	Agriculture	1.7700	Bachhan, Assan s/o Khailuddin, Raish Ahamad, Ashulla, Bhushan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				841/493क	Private	Agriculture	0.1500	Sayid Ahamad s/o Jufekar Ahamad
				841/493ख	Private	Agriculture	0.0600	Mohd. Farooq s/o Saruddin, Mohd. Javed s/o Mohd. Ayub, Smt. Akbari Bibi w/o Late Mohd. Ayub, Mohd. Ayub, Mohd. Ilyash, Mohd. Juber s/o Saruddin

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				494	Private	Agriculture	0.5700	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Ifan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				495	Private	Agriculture	0.3000	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Ifan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				496	Private	Agriculture	0.3300	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Ifan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				497	Private	Agriculture	0.4000	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Irfan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				498	Private	Agriculture	0.2100	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Irfan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				499 क	Private	Agriculture	0.3100	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahan w/o Mohd. Adil, Mohd. Kaish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish S/O Mohd. Zaleel, Mohd. Irfan 11 Years s/o Safir (Gri.Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Mahfooz Ahamed s/o Safiq Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				499 ख	Private	Agriculture	0.0700	Mohd. Farooq s/o Saruddin, Mohd. Javed s/o Mohd. Ayub, Smt. Akbari Bibi w/o Late Mohd. Ayub, Mohd. Ayub, Mohd. Iliyash, Mohd. Juber s/o Saruddin

497 91/07-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500	Private	Agriculture	0.4200	Mohd. Afaq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Baboo Ahamed, Mohd. Miya, Mohd. Sahid s/o Mohd. Adil, Musamad Noorjahari w/o Mohd. Adil, Mohd. Kalish, Mohd. Vaish, Mohd. Farhar s/o Mohd. Idreesh, Faiz (13 years Gri. Musamat Safiya Khatoon) s/o Mohd. Mohd. Idreesh, Safiya Khatoon w/o Mohd. Idreesh, Mohd. Naseem, Mohd. Aslam s/o Mohd. Asiq, Atiq Ahamed s/o Mohd. Sameem, Smt. Aziza Begam w/o Mohd. Asiq, Mohd. Ayub s/o Wasir Ahamed, Sarwari Bibi, Tahrun Nisha w/o Mohd. Afaq, Mohd. Farooq, Maksood Ahamed s/o Kuddush, Mohd. Idrish s/o Mohd. Zaleel, Mohd. Ifan 11 Years s/o Saifir (Gri. Aliya Bibi), Mohd. Ahamed Alis Bachche, Mabood Ahamed, Nayimuddin Alis Nikkey s/o Azizuddin, Maftooz Ahamed s/o Saifir Ahamed, Fazle Rub s/o Abdul Aziz
				501	Private	Agriculture	0.2000	Chaubey, Chitani s/o Girdari
				501क	Private	Agriculture	0.1900	Ragubeer s/o Bishoo
				501ख	Private	Agriculture	0.2000	Chaubey, Chitani s/o Girdari
				501ग	Private	Agriculture	0.2000	Chitani s/o Girdari
				501घ	Private	Agriculture	0.2000	Chote Lal s/o Ram Vishal, Laukush s/o Jawahar, Mus. Zahari s/o Ram Vishal
				501ङ	Private	Agriculture	0.2300	Sayid Ahamed, Nayimuddin, Haqimuddin, Raishuddin, Afsar Ahamed, Mohd. Aslam, Nizamuddin s/o Masheuddin
				501च	Government	Agriculture	0.0500	Baloo Rate
				501छ	Private	Agriculture	0.1600	Rahbood, Brij Bahadur, Pappu, Ram Bhawan, Garib Das s/o Ram Khelawan
				501ज	Government	Agriculture	0.0500	Rate Baloo
				501झ	Private	Agriculture	0.1900	Ragubeer s/o Bishoo
				501ञ	Private	Agriculture	0.2900	Ramjan Ali, Sadar Ali s/o Nabab Hasan, Mohd. Ahamed, Sher Ali, Sultan Ali, Ifan Ali (16 Years), Nizwan Ali (12 Years) s/o Lallan Gri. Mus. Asgari Bibi (Mother)
				502 क	Private	Agriculture	0.0700	Mithae Lal, Mewa Lal s/o Chedi, Gudiyi Devi w/o Chedi
				502 ख	Private	Agriculture	0.2300	Bhola Ram s/o Jagroop, Sampatiya w/o Jagroop
				502 ग	Private	Agriculture	0.0500	Baldev s/o Ramdeen, Hardev s/o Ram Saran, Abhimanu Singh s/o Jagat Singh, Kuwar Bahadur, Vijay Bahadur s/o Hari, Indi Devi w/o Hari, Jagdeep, Jagjeet, Jagroop, Bhullan s/o Raghunath, Buddan, Nanku, Sita Ram s/o Dhasshu, Laloo s/o Mahadev
				502 घ	Private	Agriculture	0.1000	Shyam Lal s/o Babu
				504क	Private	Agriculture	0.1900	Baldev s/o Ramdeen, Hardev s/o Ram Saran, Abhimanu Singh s/o Jagat Singh, Kuwar Bahadur, Vijay Bahadur s/o Hari, Indi Devi w/o Hari, Jagdeep, Jagjeet, Jagroop, Bhullan s/o Raghunath, Buddan, Nanku, Sita Ram s/o Dhasshu, Laloo s/o Mahadev

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				504ख	Private	Agriculture	0.0700	Mohd. Farooq s/o Saruiddin, Mohd. Javed s/o Mohd. Ayub, Smt. Akbari Bibi w/o Late Mohd. Ayub, Mohd. Ayub, Mohd. Ilyash, Mohd. Juber s/o Sadaruddin
				505	Private	Agriculture	0.2200	Baldev s/o Ramdeen, Hardev s/o Ram Saran, Abhimanu Singh s/o Jagat Singh, Kuwar Bahadur, Vijay Bahadur s/o Hari, Indi Devi w/o Hari, Jagdeep, Jagjeet, Jagroop, Bhullan s/o Raghunath, Buddhan, Nanku, Sita Ram s/o Dhasshu, Laloo s/o Mahadev
				506	Private	Agriculture	0.3200	Baldev s/o Ramdeen, Hardev s/o Ram Saran, Abhimanu Singh s/o Jagat Singh, Kuwar Bahadur, Vijay Bahadur s/o Hari, Indi Devi w/o Hari
				507	Private	Agriculture	0.1900	Baldev s/o Ramdeen, Hardev s/o Ram Saran, Abhimanu Singh s/o Jagat Singh, Kuwar Bahadur, Vijay Bahadur s/o Hari, Indi Devi w/o Hari
				517	Private	Agriculture	0.5100	Suleman, Abdul Rahman s/o Saheb Ali
				518	Private	Agriculture	0.4800	Suleman, Abdul Rahman s/o Saheb Ali
				519	Private	Agriculture	0.3500	Hagimuddin s/o Masiuddin, Asiq Begam w/o Habibuddin
				520	Private	Agriculture	0.7300	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhussan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				521	Private	Agriculture	1.0100	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhussan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				524	Private	Agriculture	0.3500	Mursid Ali s/o Munshi, Minhajuddin s/o Abdul Aziz, Abdul Rahman s/o Saheb Ali
				525	Private	Agriculture	0.2000	Mursid Ali s/o Munshi, Minhajuddin s/o Abdul Aziz, Abdul Rahman s/o Saheb Ali
				526	Private	Agriculture	0.1000	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhussan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				527	Private	Agriculture	0.1000	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhussan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				528	Private	Agriculture	0.4100	Mursid Ali s/o Munshi, Minhajuddin s/o Abdul Aziz, Abdul Rahman s/o Saheb Ali
				529	Private	Agriculture	0.3600	Mursid Ali s/o Munshi, Minhajuddin s/o Abdul Aziz, Abdul Rahman s/o Saheb Ali

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				530	Private	Agriculture	0.2100	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhushshan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				531	Private	Agriculture	1.2600	Bachhan, Assan s/o Khaliluddin, Raish Ahamad, Ashiulla, Bhushshan s/o Kallu, Nannhe 15 years s/o Kallush, Antoo Bibi, Safiya Bibi w/o Gulam Mushtafa, Sahela Bibi w/o Naseruddin, Mohd. Sahid, Mohd. Abid s/o Gulam Mushtafa
				532	Private	Agriculture	0.5700	Musmat Rafiya Bibi w/o Joje Gulam Mustafa, Musmat Sahela Bibi w/o Joje Naseruddin
				532क	Government	Agriculture	0.0500	Baloo Rate
				532ख	Private	Agriculture	0.2000	Haqimuddin s/o Masiuddin, Asiq Begam w/o Habibuddin
				533	Government	Agriculture	0.0800	Rate Baloo
				534	Private	Agriculture	0.1100	Dubri, Ram Awtar, Ram Saran, Ram Khelawan, Ram Kishor s/o Hanuman
				535	Private	Agriculture	0.4500	Mohd. Ayub, Mohd. Farooq, Mohd. Ilyash, Mohd. Jubair s/o Sadaruddin

[F. No. 11015/5/2001/DGM/LAQ/Alld. Bypass]

PRABHAKAR, Dy. Secy.